

Always recommended, Please use Internet explorer version 7 or higher.

Please incorporate Microsoft developed tool for Hindi typing in krutidev 10, Hindi Indic Input 2 –For Detailed information please install tool from the below mentioned path:

<http://www.bhashaindia.com/Downloads/Pages/home.aspx>

Microsoft Indic Language Input Tool


Microsoft Indic Language Input Tool helps you enter Indian language text easily into any application in Microsoft Windows or on any page on the Web. The primary input mechanism is transliteration. Additionally, it provides a visual keyboard to assist with editing words that do not transliterate properly.

Firm and Society officials can use below mentioned screen once submitted application reflected at their end


Please type url as mentioned below

<https://www.mponline.gov.in/Portal/frmG2GLogin.aspx>

Under Login please click on G2G login, below mentioned screen will be displayed




Insert login id & Password ,provided by MPOne Limited.



Click on “Application for Approval” in society section. Once clicked screen will be displayed as mentioned below

Select search by **application number or Date or all**



The screenshot shows a web browser window displaying the MPOnline Limited website. The page title is "Society Application List - Windows Internet Explorer provided by MPONLINE INTERNET ACCESS GATEWAY". The URL is "http://www.mponline.gov.in/portal/Services/FormAndSociety/OrgaUserFormSocietyAppList.aspx?langid=0-US&siteID". The page features a navigation menu with links for HOME, ABOUT US, CODE LIST, UTILITIES, CLUB SPACE, and CITIZEN SERVICES. The main content area is titled "Applications for Approval" and contains a search bar with radio buttons for "Application No.", "Date", and "All". Below the search bar is a table with the following data:

Serial No.	Application No.	Society Name	District	Application Date	View Details
1	2423000031011172012	Krishna one society	MPHW	12/10/2012	View All Applications
2	24230000310116102012	dhyalghdth	MPHW	16/10/2012	

click on **Application no** link Below screen will be shown.

MPonline Limited Beta
Joint Venture between Govt. of MP & TCS
महानगर मंत्रालय का पोर्टल

HOME ABOUT US KIOSK LIST UTILITIES KIOSK SPACE CITIZEN SERVICES

Registered

[Click here to View Memorandum](#)

[Click here to View Niyamwali](#)

x

सर्वसादरी से संबंधित दस्तावेज संलग्न

आवान क्रमांक [आवान क्रमांक खोज](#)

नियमावली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये पहचान पत्र का क्रमांक

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के लिये पते का क्रमांक

[Uploaded Niyamali](#)
[Uploaded ID Proof](#)
[Uploaded Address Proof](#)

Copyright © 2012 MPOnline Limited | Privacy Policy | Disclaimer

Internet | Protected Mode: Off

Click on view Memorandum Below screen will be shown

Society Application - Windows Internet Explorer provided by MPONLINE INTERNET ACCESS-GATEWAY

http://www.mponline.gov.in/jportal/Servlets/FormsAndSecurity/Organize/ViewNewSocietyApp.aspx?appfile=342300070812020120mgqshh-Bdhw.D

MPOnline Limited HOME ABOUT US KODAK LIST UPDATES ROOM SPACE CITIZEN SERVICES Bhopalreg

Click here to View Memorandum

समाज कानून 1
(2014 कानून 3)
अभिहित क विवरण प्र प्रस्ताव पर

1. समाजको नाम **Krishna one society** होला।
2. समाजको नामको **दफ्तरीकरण 554534** नम्बरको तथित विवरण अलग अलग पृष्ठमा लेखल होला।
3. समाजको नामको **दफ्तरीकरण** होला।
4. समाजको नामको तथित विवरण अलग अलग पृष्ठमा लेखल होला।

समाजको नाम	समाजको नाम	समाजको नाम	समाजको नाम	समाजको नाम
1. सदस्य	revery	समाजको नाम	revery, दफ्तरीकरण, समाज, कानून	समाजको नाम
2. रजिस्ट्रार	दफ्तरीकरण	समाजको नाम	दफ्तरीकरण, दफ्तरीकरण, समाज, कानून	समाजको नाम
3. तथित विवरण	समाजको नाम	समाजको नाम	समाजको नाम, दफ्तरीकरण, समाज, कानून	समाजको नाम
4. समाजको नाम	समाजको नाम	समाजको नाम	समाजको नाम, दफ्तरीकरण, समाज, कानून	समाजको नाम
5. समाजको नाम	समाजको नाम	समाजको नाम	समाजको नाम, दफ्तरीकरण, समाज, कानून	समाजको नाम
6. समाजको नाम	समाजको नाम	समाजको नाम	समाजको नाम, दफ्तरीकरण, समाज, कानून	समाजको नाम
7. समाजको नाम	समाजको नाम	समाजको नाम	समाजको नाम, दफ्तरीकरण, समाज, कानून	समाजको नाम
8. समाजको नाम	समाजको नाम	समाजको नाम	समाजको नाम, दफ्तरीकरण, समाज, कानून	समाजको नाम

Copyright © 2012 MPOOnline Limited | Privacy Policy | Disclaimer

Internet | Protected Mode Off

124 PM 12/08/2012

MPOnline Limited HOME ABOUT US KODAK LIST UPDATES ROOM SPACE CITIZEN SERVICES Bhopalreg

Click here to View Memorandum

Click here to View Niyamwalli

समाजको नाम

1. समाजको नाम **Krishna one society** होला।
2. समाजको नामको **दफ्तरीकरण 554534** नम्बरको तथित विवरण अलग अलग पृष्ठमा लेखल होला।
3. समाजको नामको **दफ्तरीकरण** होला।
4. समाजको नामको तथित विवरण अलग अलग पृष्ठमा लेखल होला।

1. सदस्य
2. रजिस्ट्रार
3. तथित विवरण
4. समाजको नाम
5. समाजको नाम
6. समाजको नाम
7. समाजको नाम
8. समाजको नाम
9. समाजको नाम
10. समाजको नाम

Copyright © 2012 MPOOnline Limited | Privacy Policy | Disclaimer

Internet | Protected Mode Off

100%

After click on Approved button then message will be displayed.



Application has been approved and , SMS / **Email intimation** will be sent to applicant in this regard

Click on “**Mark Objection**” Below screen will be shown.

Objection Details

कार्यालय
असिस्टेंट रेजिस्ट्रार फर्मर्स एवं संस्थाएं,
श्रीपाल नर्मदापुरम संभाग,
श्री ब्लाक पुराना सचिवालय,
श्रीपाल

ब्लॉक/पंजी क्रम/Y4230200046410012013

दिनांक, अर्पण तिथि: 10/01/2013

पता: रीटायर्ड
 रीटायर्ड
 भारतीय नौसेना 564654

पिन्कोड: श्रीपाल पंजीकरण ब्लाक

दिनांक: अर्पण पंजीकरण ब्लाक दिनांक: 10/01/2013

आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का पोलिसा विचार बसा, प्राप्त प्रस्ताव में निम्नलिखित (✓) त्रुटियां पाई गई हैं।
 कृपया सुझाव का प्रस्ताव सुक लेख त्रुटियों में प्रस्तुत करें।

1	श्रेणी के नाम में परिवर्तन करें। प्रस्तावित नाम से पंजीकरण ब्लाक संभव नहीं है।	<input type="checkbox"/>
2	प्रस्तुत प्रस्ताव उच्च श्रेणी (1475-अल्प सहायक अधिकारी सेवारत, 200-अल्प सहायक उपकर्मों का विवरण) में उभरा नहीं है, अतः अस्वीकृत है। प्रस्ताव प्रस्तावित श्रेणी के नाम से नहीं है।	<input type="checkbox"/>
3	प्रस्तावित उच्च श्रेणी विवरण करें। अधिविवरण के प्रस्तावों के अंतर्गत नहीं है। प्रस्ताव उच्च अधिविवरण/संशोधन करें।	<input type="checkbox"/>

अन्य त्रुटियां :

प्रस्तावक एवं पंजीकृत
 असिस्टेंट रेजिस्ट्रार फर्मर्स एवं संस्थाएं,
 श्रीपाल नर्मदापुरम संभाग,
 श्री ब्लाक पुराना सचिवालय,
 श्रीपाल फोन-07592738393

Fill the required detail and click on submit button.

Objection Details

कार्यालय
असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्मस एवं संस्थाएं,
श्रीपाल नर्मदापुरम संभाग,
श्री ब्लाक पुराना सचिवालय,
श्रीपाल

ब्लॉक/पंजी क्रम/Y4230200046410012013

दिनांक, अर्पण तिथि: 10/01/2013

पता: रजिस्ट्रार
 रजिस्ट्रार
 भारतीय नौका 564654

विषय: शिकायत पंजीकरण संबंधी

दिनांक: अर्पण पंजीकरण प्रस्ताव दिनांक: 10/01/2013


आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का पंजीकरण किया गया, प्रस्ताव प्रस्ताव में विस्तारित (-) त्रुटियों वाले हैं।
 त्रुटियाँ सुझाव का प्रस्ताव तुरंत तैयार करके भेजें।

1	शिकायत के तहत में परिचय नहीं। प्रस्तावित नाम में पंजीकरण प्रस्ताव नहीं है।	<input type="checkbox"/>
2	प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्ताव शीर्षक (1475-अन्य समस्त अन्य शीर्षक, 200-अन्य व्यावसायिक उपकरणों का विवरण) में प्रस्ताव नहीं है, अतः अर्पण नहीं है। प्रस्ताव प्रस्तावित शीर्षक के तहत में नहीं है।	<input type="checkbox"/>
3	प्रस्तावित प्रस्ताव प्रस्ताव विस्तारित करे। अर्पणित के प्रस्तावों के अर्पण नहीं है। प्रस्ताव प्रस्ताव अर्पणित/प्रस्तावित है।	<input type="checkbox"/>

अन्य त्रुटियाँ :

प्रस्ताव एवं पंजीकरण
 असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्मस एवं संस्थाएं,
 श्रीपाल नर्मदापुरम संभाग,
 श्री ब्लाक पुराना सचिवालय,
 श्रीपाल फोन-07592738393

Message will be displayed on submitting the objection marked .



Objection has been raised against the above application number, SMS / Email intimation will be sent to applicant in this regard

MPonline Limited Beta
Joint Venture between Govt. of MP & TCS
संयुक्त उद्योग का सेवा

HOME ABOUT US KIOSK LIST UTILITIES KIOSK SPACE CITIZEN SERVICES Bhopalreg

परीषदा

मै... Ashish Tiwari ...आयु... Ganga Prasad Tiwari ...आयु... 37 ...उर्षे धर्म... Hindu ...इसके द्वारा यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त द्वारा मेरे पुत्रास
 जल तथा विश्वास के साथ तथा बधार्थे हूँ।

पता..... इलाका (CA/Advoca/Gazetted Officer) इलाका

मै... Om Prakash Raghwanshi ...आयु... Hajari Lal Raghwanshi ...आयु... 56 ...उर्षे धर्म... Hindu ...इसके द्वारा यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त
 पुत्रास मेरे पुत्रास जल तथा विश्वास के साथ तथा बधार्थे हूँ।

पता..... इलाका (CA/Advoca/Gazetted Officer) इलाका

सदी का मन

- Laxman Singh Thakur
6 Kanha Kunj, Phase II, Kolar, इरु, कर्णा
- Kishu Dayal Shrivastava
59 dwarikapuri, kotra, इरु, कर्णा

✖

धर्म से संबंधित दस्तावेज संलग्न

वालास क्रमांक [वालास क्रमांक खोज](#)

सद्दीदार डीड

भागीदार के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये पहचान पत्र का क्रमांक

भागीदार के पता की जानकारी

पता के लिये पते का क्रमांक

[Uploaded Deed](#)
[Uploaded ID Proof](#)
[Uploaded Address Proof](#)

Approved Open Objection Edit

Copyright © 2012 MPOnline Limited | Privacy Policy | Disclaimer

Done Internet | Protected Mode: Off 100%

On clicking the Edit button below screen will be shown.

MPonline Limited Beta HOME ABOUT US KIOSK LIST UTILITIES KIOSK SPACE CITIZEN SERVICES Bhopalieng

Joint Venture between Govt. of MP & TCS
भारतीय सरकार का कर्मचारी

शरीर
पीपण
 मं... Ashish Tiwari ...आयु... Ganga Prasad Tiwari ...आयु... 37 ...उर्षे धर्म... Hindu ...इसके द्वारा यह घोषित करता है कि उपरोक्त द्वारा मंत्र पुस्तक
 ज्ञान तथा विश्वास से सत्य तथा बंधा है।
 पता..... इलाका (CA/Advoct/Gazetted Officer) इलाका
 पता.....

मं... Om Prakash Raghuvanshi ...आयु... Hajari Lal Raghuvanshi ...आयु... 56 ...उर्षे धर्म... Hindu ...इसके द्वारा यह घोषित करता है कि उपरोक्त
 ज्ञान तथा विश्वास से सत्य तथा बंधा है।
 पता..... इलाका (CA/Advoct/Gazetted Officer) इलाका
 पता.....

शरीर का नाम
 1. Laxman Singh Thakur
 6 Kanha Kunj, Phase II, Kolar, इंदूर, मध्य प्रदेश
 2. Kishu Dayal Shrivastava
 59 dwarkapuri, kotra, इंदूर, मध्य प्रदेश

फर्म से संबंधित दस्तावेज संलग्न
 वालन क्रमांक [वालन क्रमांक खोज](#)
 सफ़ेदार डीड
 भगतीदार के पहचान पत्र की जानकारी
 पहचान पत्र के लिये पहचान पत्र का क्रमांक
 भगतीदार के पता की जानकारी
 पता के लिये पते का क्रमांक
[Uploaded Deed](#)
[Uploaded ID Proof](#)
[Uploaded Address Proof](#)

Approved Open Objection Edit



Copyright © 2012 MPOnline Limited | Privacy Policy | Disclaimer

Done Internet | Protected Mode: Off 100%


Edit the details if required or found improper.

After that click on update button.

Details updated successfully message will be displayed.



Click on **Challan no and search** , below screen will be shown.



Please insert CIN Number, for authenticating the Challan Fee.

Please insert CIN Number



CHALLAN SEARCH

खेपालय का नाम*	Select a Treasury
बैंक संख्या / शाखा संख्या *	<input type="text"/>
आलान का प्रच. जी. ए *	<input type="text"/>
आलान तिथि *	<input type="text"/>
<input type="button" value="Submit"/>	

CHALLAN SEARCH BY CIN NUMBER

चिन संख्या*

Click on **Submit Button**

On submission below mentioned information related to **CIN Number** will be displayed



Treasuries & Accounts
Department of Finance
Govt. of MP

CHALLAN SUMMARY

बो-पालय	पालान तिथि	पालान संख्या	पालान राशि	एच. अी. ए	जमा करी
051	24-12-2012	1475111		1475-00-200	satya narayan suman

If your case is not listed above, Please contact your Treasury

[Back](#)

[Citizen Charter](#) | [Codes/Rules](#) | [DOO Help](#) | [Useful Links](#) | [FAQ](#) | [Circulars/Notifications](#) | [Download](#) | [About us](#) | [Home](#)

[My Area](#) | [Events](#) | [Feedback](#) | [Guest Book](#) | [Cyber Treasury](#) | [Reports](#) | [Unique Sanction No.](#) | [Challan Search](#) | [Web Prompt Help Desk/Grievances](#)

Copyright, 2004. All right reserved with Directorate of Treasuries & Accounts, Govt. of M.P.
Designed & Developed by: CMC Limited

Internet | Protected Mode: Off

100%

If found any information improper then please contact Treasury in this regard

Once clicked on blue colored (**Challan sankhya**) , below mentioned screen will be displayed



Treasuries & Accounts
Department of Finance
Govt. of MP

CHALLAN DETAILS

चलान संख्या	1475111
बोचालय	Bhojpur bhawan
चलान तिथि	24/12/2012
सकयमा वर्ष	-
सै क च पता	malviya nager bhopal
सै क संख्या	43
शाखा संख्या	38
रसीद अर्थोराधिवै रान संख्या	-
जमा कर्ता	satya narayan suman
स्कूल संख्या	03
करण	-
वाहन संख्या	-
चलान कुल राशि	1.0
चलान शुभ राशि	1.0
चलान च प्रकर	3
सिग संख्या	UBIN/053897014752412201200003

मेजर हेड	सामेजर हेड	माइंजर हेड	स्कीम हेड	औबजेकट हेड	राशि	टिप्पणी
1475	00	200	0000	00	1.0	-

Back

[Citizen Charter](#) | [Codes/Rules](#) | [DDO Help](#) | [Useful Links](#) | [FAQ](#) | [Circulars/Notifications](#) | [Download](#) | [About us](#) | [Home](#)
[My Annual Events](#) | [Feedback/Guest Book](#) | [Cyber Treasury](#) | [Reports](#) | [Unique Sanction No.](#) | [Challan Search](#) | [Web Prompt/ Help Desk/Grievances](#)

Copyright, 2004. All right reserved with Directorate of Treasuries & Accounts, Govt. of M.P.
Designed & Developed by - CMC Limited


Done

Internet | Protected Mode: Off


100%

Provision existed in the system but officials do not use

Click on **Certificate Generation** Below screen will be shown.



Click on Firm Application status Division Wise in Reports section ,Below screen will be shown.



Click on Society Application status Division wise in Reports section Below screen will be shown

Select from the drop down of “ Society type “

The screenshot shows the Mponline Limited web portal interface. At the top, there is a navigation bar with the logo and menu items like HOME, ABOUT US, KNOW MORE, etc. Below this is a search bar and a 'Generate Report' button. The main content area displays a form titled 'Society Division Wise Report'. The form has two dropdown menus: 'Society Type' (set to 'Normal Society') and 'Division' (set to 'Bhopal'). Below the form is a table titled 'Society Division Wise Report' with the following data:

S.No	District / Division name	Total No of Applications	No of Application Approved
1	झारखण्ड	2	1
2	बिहार	36	17
3	उत्तर प्रदेश	1	1
4	गुजरात	1	1
5	महाराष्ट्र	2	1
6	केरल	3	3
Total		45	24

For Support and Help

Please contact on below mentioned address or contact numbers

Address:

Mponline Limited,

2nd Floor , Nirupam shopping Mall,

Ahamedpur,Hoshangabad Road

Bhopal-462026

Contact Number

General Query - Ph: 0755 4019400 - 0755 4019406

For Email and Query/Concerns use below mentioned web address

<https://www.mponline.gov.in/Portal/ContactHome.aspx#>

Please Select Email/Query Section

On selection New Complaint

Complaint log screen will be displayed as under

MPOnline Limited Beta
Joint Venture between Govt. of AP & TCS
మొదటి సారి ఆన్ లైన్

HOME ABOUT US KIOSK LIST UTILITIES KIOSK SPACE CITIZEN SERVICES Login

CONNECT WITH MPONLINE

- MAY I HELP YOU
- HOW TO REACH
- MANAGEMENT
- SUGGESTION
- E-MAIL/QUERY**

Complaint Log Screen [Home](#)

Are you a citizen or Kiosk user? *

User Name

Name Of Service *

Application No. /Reference/Transaction ID

User Mobile No.

User Email Id

Complaint Description *

Attachment (if any)

(.txt / .doc / .pdf / .xsl / .jpg / .zip / .rar)

Copyright © 2013 MPOnline Limited | Privacy Policy | Disclaimer

Done Internet | Protected Mode: Off 100%

Fill required details and submit,Once submitted unique number will be generated for tracking your complaint.

Please keep this number safe for future use.